Mefcom Capital Markets Ltd.

5thFloor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi-110019.
Phone: +91(11)46500500 Fax: +91(11)4650 0550
E-mail: info@mefcom.in website www.mefcom.in
CIN: L74899DL1985PLC019749

Date: 03.09.2024

To,

Department of Corporate Services, BSE Limited Phiroze jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai -400001

Scrip Code (BSE): 531176

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulation 2015.

Sub: Submission of Copy of Notice of Annual General Meeting published in the Newspapers.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosed Publication of Newspapers "Jansatta" (Hindi) and "Financial Express" (English) with regards to Notice of Convening the Annual General Meeting of company.

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking You

For Mefcom Capital Markets Limited

Priyanka Goyal Company Secretary

जनसता ।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र, सेंसर बोर्ड व कंगना को भेजा नोटिस

जबलपुर, 2 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिल्म इमरजेंसी के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर अभिनेत्री कंगना रनौत, केंद्र सरकार,

फिल्म इमरजेंसी के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी याचिका।

AVON MERCANTILE LIMITED

CIN: L17118UP1985PLC026582

Regd. Office: Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No.I-2,

Sector - 25A, Noida (Uttar Pradesh-201301)

Phone: 0120-3355131

E-Mail: avonsecretarial@gmail.com, Website: www.avonmercantile.co.in

INFORMATION REGARDING 39th annual general meeting ("AGM")

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/

OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

This is to inform that the 39th Annual General Meeting (AGM) of Avon Mercantile Limited

(the Company) will be convened on Wednesday, September 25, 2024 at 01:30 PM (IST)

through VC/OAVM facility to transact the business that will be set forth in the Notice of the

AGM, as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the rules

framed thereunder read with General Circular No. 14/2020 datedApril 8, 2020, Circular

No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20 dated May 5, 2020, Circular No. 2/2021

dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No.

21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 22022 dated May 5, 2022, Circular No.

10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09 dated September 25, 2023 issued

by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79

dated May 12, 2020, SEBI HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021

SEBIHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PD

2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBVHO//CFD/CFD-PD-2/P/CIR/2023/167

dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India in this

The deemed venue of the 39th AGM shall be the registered office of the Company for the

As the 39th AGM is being convened through VC/OAVM, physical presence of the

Members at the venue is not required. In compliance with the above referred Circulars,

Notice of the 39th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended

March 31, 2024 will be sent, in due course, only by e-mail to those Members, whose

e-mail addresses are registered with the Depository Participants (DPS)/Depositories.

The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository,

Notice of the Annual General Meeting and login details for e-voting shall be sent to your

registered email address. In case you have not registered your email address with the

Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email

Physical | Send a signed request letter to Registrar and Transfer Agents of the Company

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic

voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the

shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz.

The Notice of AGM will also be available on Company's website www.avonmercantile.co.in.

and website of Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and Calcutta Stock

Exchange Association Limited at www.cse-india.com. Members attending the meeting

through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any query, the Members may contact or write RTA at

The requirement of sending physical copies of the Annual Report (including Notice of the

AGM) has been dispensed with vide above-mentioned Circulars. However, a Member may

demand the hard/soft copy of the same by writing to us at avonsecretarial@gmail.com,

Notice of the 39th AGM and Annual Report will also be made available on Company's

website at www.avonmercantile.co.in, website of Stock Exchanges ie. BSE Limited (BSE)

at www.bseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository

ROLLATAINERS LIMITED

CIN: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera,

District- Rewari Rewari 123106, Phone: 01274-243326, 242220,

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com; Website: www.rollatainers.in

INFORMATION REGARDING 53RD ANNUAL GENERAL MEETING.

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

The 53" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rollatainers Limited ("the

Company') will be held on Friday, 27" September, 2024 at 10:00 A.M. at the Registered

Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District-

Rewari -123106, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013

read with any MCA Circulars related thereto, to transact the businesses as set out in the notice

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities

and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM along with the

Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be only sent to shareholders whose name

appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 30" August

2024 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P)Limted, Registrars & Share

The said documents will also be available at company's website at www.rollatainers.in and

CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website I.e www.bseindia.com and

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with

relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is also informed that the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September

21, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 53" AGM of the

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 53" Annual General Meeting (AGM) by electronic

means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository

Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-

Members of the Company holding shares either in physical form or in demateialized form,

along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 20th September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The Remote E-voting period will commence from Tuesday, September 24, 2024 (9:00 a.m.

IST) and will end on Thursday, September 26, 2024 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of

the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from

the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer

Services (P) Limited, Beatal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind, Local Shopping Center,

Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062, Tel: 011-29981281-83 Email:

remote e-voting then he/she can use his/ her existing user ID and password for casting the

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43.

It is also requested to all the shareholders to update their Email IDs for supply of Annual

Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-dated

Bank details will enable electronic credit of dividends, if so, declared by the Company in

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants (DPs) for updating the Email address, Mobile No. and

In case of Physical Holding: Shareholders holding shares in physical form are requested to send following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal

Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99,

Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062 at investor@beetalfinancial.com and beetairta@gmail.com in order to facilitate for sending the Notice of Annual General Meeting,

Annual Report and other important communications in electronic mode. Members may access the relevant forms available on the website of the Company at www.rollatainers.in/. Details: Full Name: Address: Email address: Mobile No.: No. of Shares held; Folio No. Certificate No.; Distinctive No; Original scan copy of PAN and Aadhar Card; Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom

Please note that the Members who have not provided their email address will not be able to get the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24. However, the same will be available on the website of the Company/Stock Exchange i.e. www.rollatainers.in /

For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at

ancial com. However, if the member is already registered with CDSL for

module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

future, without any delay and banking hassles for shareholders.

Bank Mandates as per the laid down procedure with the RTA/ Depository

vote through e-voting.

Bank Mandate).

they maintain their demat accounts

For **Avon Mercantile Limited**

Disha Soni

ACS 42944

Company Secretary

address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company.

www.avonmercantile.co.inunderInvestorRelationTab.

MCS Share Transfer Agent Limited at admin@mcsregistrars.com in duly filled

Form No. ISR 1, which can be downloaded from the website of the Company at

Please contact your DP and register your email address and bank accoun

regard (hereinafter collectively referred as 'Circulars')

address for obtaining notice and login details for e-voting.

Holding details as per the process advised by DP.

Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

proceedings of the AGM.

E-voting Information:

www.avonmercantile.co.in.

Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

NSE website i.e. www.nseindia.com

Place: Noida

Date: 02.09.2024

its Members similar to earlier practices.

ऐसे दृश्य हैं, जो सिखों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

ओर से दायर जनहित सेंसर बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का किरदार निभाया है।

याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म में वाली अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत और अन्य प्रतिवादियों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा दो सिख संगठनों की सदस्य ने छह सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी

मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय:- पाँचवी मंजिल, सांची बिल्डिग, 77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

CIN: L74899DL1985PLC019749 वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को सायं 4:30 बजे ई-15, हाल, डी-ब्लॉक, पुष्पांजिल इनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 पर एजीएम की सूचना में अंसल विलाज, सतबाडी, नई दिल्ली -110030 में एजीएम आयोजन की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेत् आयोजित की जायेगी।

कम्पनी ने एजीएम की सूचना को इलेक्ट्रानिक तरीके से भेजने का कार्य कम्पनी के उन सदस्यों जिनके ईमेल आरटीए के पास पंजीकृत को शनिवार 31 अगस्त 2024 को पूरा कर लिया है, वहीं साथ में कम्पनी की वेबसाइट https://www.mefcom.in/ एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट i.e., बीएसई लिमिटेड https://www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पिटत कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 समय–समय पर यथासंशोधित एवं लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम के बुलावे सूचना में निर्दिष्ट सभी विशेष व्यवसायों पर उनके इलेक्ट्रानिकली रिमोट ई—वोटिंग सर्विसेस द्वारा वोट देने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान कराई जा रही है। निदेशक मंडल ने बीके शर्मा एण्ड एसोसियेट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को ई-वोटिंग सर्विसेस एव एजीएम में वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जाँचकर्त्ता नियक्त किया है। सदस्यों को वोटिंग का अधिकार उनके द्वारा सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 को धारित कम्पनी के चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल के अनुपात में होगा।

सदस्यों को एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे नोट करें:

क) Tरिमोट ई—वोटिंग का पोर्टल/सुविधा शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे खुलकर रविवार 22 सितम्बर, 2024 को सायं 5:00 समाप्त होगा। उपरोक्त निर्धारित तिथ एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि i.e., सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज/आरटीए द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ एजीएम में वोटिंग का हकदार होगा। एक व्यक्ति जिसने कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं रह जाता है, इस सूचना को केवल जानकारी के उदेश्य हेत् लेना चाहिए।

एक सदस्य साधारण बैठक में उसके ई-वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन फिर से एजीएम में वोट देने की अनुमति नहीं होगी। जो सदस्य, वोट के हकदार है लेकिन रिमोट ई-वोटिंग के अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, एजीएम में वोट दे सकते हैं।

एक व्यक्ति जो सूचना को भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट-ऑफ तिथि i.e., सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 को शेयर धारण करता हो, यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in, पर अनुरोध भेज सकता है, जिसकी यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने की विस्तारित प्रक्रिया साथ में एजीएम की सूचना में भी

ईमेल पते के पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीका निम्न प्रकार है :

भौतिक शेयर धारित शेयरधारकों के लिए- कृपया अपने आवश्यक विवरण जैसे फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे एवं पीछे) पैन कार्ड की (स्वअभिप्रमाणित स्कैन कॉपी) एवं आधार की (स्वअभिप्रमाणित स्कैन कॉपी) को कम्पनी के आरटीए के ईमेल आईडी पर प्रस्तुत करें।

व्यक्तिगत प्रपत्र में शेयर धारित शेयरधारकों के लिए- कृपया अपने ईमेल आईडी एवं मोबाइल न० अपने सम्बन्धित डिपॉटरीज भागीदार (डीपी) के पास अपडेट करा लें, जो एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने एवं रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धि

ात किसी भी प्रश्न, आप सुश्री पल्लवी महात्रे को evoting@nsdl.co. in पर ईमेल लिख सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली विजय मेहत्ता तिथि: 31.08.2024 प्रबन्ध निदेशक

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएनः L33200UP1993PLC015474

पंजीकृत कार्यालयः 19वीं किमी, हापुड़–बूलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बूलंदशहर –203408 मुख्य कार्यालयः प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 दूरभाषः 011-40322100,

> ईमेलः cs_cfhl@jindalgroup.com, वेबसाइटः www.consofinvest.com 38वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (''कंपनी'') की 38वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार कारोबार किया जा सके, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में समय पर भेजा जाएगा। सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05.05.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25.09.2023 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के मद्देनजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") सुविधा या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने की अनुमित दी गई, बिना किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। इसी तरह की छूट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 (''सेबी परिपत्र'') के माध्यम से प्रदान की है।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अपने सभी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है, जैसा कि पहले

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की ई-प्रति कंपनी की वेबसाइट www.consofinvest.com पर उपलब्ध होगी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, एजीएम में शामिल

www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी और समय आने पर इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध

होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे

यदि ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे उल्लिखित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें:

लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को delhi@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) का विवरण ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए दें। कृपया अपना बैंक विवरण मूल रद्द किए गए चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी हिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058) को भेजें, साथ ही फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र भी भेजें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।)

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यदि कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान की घोषणा की जाती है, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है, तो एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंगध्ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल एजीएम की सचना के साथ पंजीकत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। हालांकि जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे ऊपर बताए अनुसार ई–मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना में उल्लिखित है। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र(ओं) और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए हस्ता /-स्थानः नई दिल्ली अनिल कौशल दिनांकः 2 सितंबर 2024 (कंपनी सचिव)

इंट्रेगा कैपिटल लिमिटेड

(पर्व की इंटेग्रा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड) CIN: L74899DL1990PLC040042 पंजीकृत कार्यालय का पता: 32 रीगल बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली 110001 भारत वेबसाइटः www.integraprofit.com ई-मेल आईडी: integraprofit@gmail.com 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग और

बुक क्लोजर की जानकारी

एतदहारा सचित किया जाता है कि क्रमशः कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय हारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य परिपत्रों ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनपालन में इंटेग्रा कैपिटल लिमिटेड (पर्व की इंटेग्रा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड) (कंपनी) के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को अपराह्न 04:00 बजे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास कट-ऑफ तिथि यानी 30 अगस्त, 2024 तक पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है

www.integraprofit.com पर भी उपलब्ध होगी और यहां से डाउनलोड की जा सकती है। सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ('ई-वोटिंग') सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 21 सितंबर, 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और 23 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो 19 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

जो सदस्य भौतिक/इलेक्टॉनिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उनके ई-मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति भेजकर जल्द से जल्द अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं) जिसमें उनका नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के पास रखे गए शेयरों की संख्या के साथ-साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी के साथ पंजीकत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति जैसे आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, चनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 प्राप्त करने के लिए integraprofit@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलत) तक बंद रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को लागू प्रावधानों के अनुसार नियत समय पर भेजी जाएगी।

इंटीग्रा कैपिटल लिमिटेड के लिए (पूर्व की इंटीग्रा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड)

तरुण वोहरा प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00030470

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 🚷

सांबा : ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार बरामद

के सांबा जिले के सीमावर्ती इलाके में एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार

प्रपत्र फॉर्म ए - सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत.

(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017

वैलिड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

20 फरवरी 2009

30 अगस्त 2024

29 सितंबर 2024

प्तदद्वारा सुबना दी जाती है कि **वैलिख टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने दिनांक **30 अगस्त**

वैलिख टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को अपने दावों का प्रमाण 29 सितंबर

2024 को या उससे पहले क्रम लख्या 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक की प्रस्तृत करने के लिए कहा

विलीय लेनदारों को अपने दावों को केंग्रल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य समी

दिनांक: 02 सितंबर 2024 आईबीबीआई पंजी. संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P-01676/2019-2020/12719

नेनदार दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, बहक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

दावों के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

राकेश मिश्रा

कंपनी रजिस्टार - दिल्ली

U32109DL2009PTC187839

ईमेलः liq vtipl24@gmail.com

फोन नंबर: 0120-4729417

वैलिड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

शॉप नंबर 302, तीसरी मंजिल, एसएसजी ईस्ट प्लाजा,

एलएससी, काँडली घरोली, मयूर विहार-॥।, दिल्ली -110096

संचार पताः सी-१००, लेक्टर-२, नोएडा, उत्तर प्रदेश-२०१३०।

सीसीः rakeshmishranr@hotmail.com

वैलिख टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए

एएफए 18 जनवरी, 2025 तक वैध है।

के हितधारकों के ध्यानार्थ

कॉपॉरेट व्यक्ति का नाम

निगमित / पंजीकृत है

प्रारंभ होने की तिथि

2 कॉर्पोरेट ब्यक्ति के निगमन की तिथि

प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति

4. कॉपॉरेट पहचान संख्या / सीमित देयता

कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

कॉरपोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला

परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता,

टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या

2024 को खैक्किक परिसमापन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

दावे प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि

एवं गोला-बारूद बरामद किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सांबा, 2 सितंबर (भाषा)। सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर

डिमाड नोटिस

राकेश मिश्रा

परिसमापव

क्षेत्रीय कार्यालय मलिक चौक, इन्द्रानगर, देहरादून उत्तराखण्ड–248001 सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 (1) के साथ प्रतिभृतिकरण और पूर्ननिर्माण वित्तीय

आस्तियों की घारा 13(2) और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनयम) के प्रर्वतन के तहत, निम्नलिखित सम्बन्धित ऋणियों द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के तहत आने वाली शाखा के पक्ष में उनके अथवा उनके जमानतदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभतियों अनचित संपत्ति जो बैंक के पक्ष में हित सरक्षित बनाने के आधार पर ऋण सविधाएं प्रदान की गई थी आपके द्वारा बैंक के पक्ष में शीर्षक विलेख (टाइटिल डीड) के माध्यम से सुरक्षा हित बनाने हेतू बंधक रखी गई है। सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नलिखित हैं जैसा की ऋणकर्ता एवं उनके जमानदारों द्वारा देयताऐं / बकाया धनराशि अदा न करने के कारण उनके खाते को भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा निर्देशों के कारण एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हैं। उक्त नोटिस दिनांक 06.08.2024 नीचे संदर्भित सभी व्यक्तियों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है जो या तो प्राप्त हो गया है या प्राप्त नहीं हुआ है। हम उक्त मांग नोटिस को प्रकाशित कर रहे है जो निम्न वर्णित है। इस प्रकाशन के माध्यम से हम उधारकर्ता मतक गारंटर / बंधककर्ता के काननी उत्तराधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और जो व्यक्ति इससे संबंधित है, जिन्हें बैंक में संदर्भित नहीं किया गया है या वे जानते हैं, उन्हें दिनांकित मांग नोटिस के साथ सूचित किया जाता है कि इनमें से जो कोई भी चाहे, वो कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर उक्त मांग नोटिस की प्रतियां

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 02.09.2024

क्रं. सं.	ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया राशि	डिमांड नोटिस की तिथि
	शाखाः ज्वालापुर, हरिद्वार	प्रतिभूतियों व्यवसायी दुकान एवं संपत्ति जो मोहल्ला लोधा मंडी, ज्वालापुर तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित है,		06.08.2024
Ш	ऋणी । मससं फ्रेंडस टेंडसं, (प्रोपसइटर: श्री किरन प्रकाश), कार्यालय पता: नया अंसारी बाजार, गुरुद्वारा रोड़, ज्वालापुर, हरिद्वार—249407,	जिसका कुल क्षेत्रफल 80 वर्ग फुट है, जो अनीता वर्मा पत्नी किरण प्रकाश वर्मा के नाम पर है, डिड के अनुसार सीमाए	दि0 31.07.2024 + ब्याज	एनपीए की तिथि
	2. श्री किरन प्रकाश वर्मा, स्थायी पता : 534, मोहल्ला चाकलान, न्यू धीरवाली, ज्वालापुर, हरिद्वार		एवं अन्य खर्चे	30.07.2024

उत्तराधिकारी), श्रीमती पूजा वर्मा (पुत्री श्रीमती अनीता वर्मा), दोनों का स्थायी पता 534, मोहल्ला चाकलान न्यू धीरवाली ज्वालापुर हरिद्वार–249407, ऐतिहासिक गुहाल मंदिर। अतः यदि आप उपरोक्त वर्णित ऋणी / जमानतकर्ता / बंधककर्ता और कानूनी उत्तराधिकारी अपनी देनदारियों को भविष्य में देय संविदात्मक व्याज एवं प्रासंगिक

खर्चों, लागत, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण रूप से बैंक को, धारा 13 (2) के अन्तर्गत इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहते है, तो बैंक उक्त एक्ट की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी एक अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है का या उक्त एक्ट में दिये गये अन्य लागू प्रावधानों का प्रयोग करेंगा। उक्त उधारकर्ता /बंधको / गारंटर / कानूनी उतराधिकारी को सुरक्षित परिसम्पत्तियों को स्थानांतरित करने से सरफेसी अधिनियम के तहत निषिद्ध किया जाता है, चाहे वे इण्डियन ओवरसीज बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लघंन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास / दण्ड के लिये जिम्मेदार होगा,जैसा की अधिनियम की धारा 29 के तहत दिया गया है। स्थान – हरिद्वार प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांक— 02.09.2024

इण्डियन ओवरसीज बैंक 🗞

शास्त्रा / ऋगी / बंधककर्ता के नाम

क्षेत्रीय कार्यालय मलिक चौक, इन्द्रानगर, देहरादून उत्तराखण्ड–248001

मांग सूचना


बकाया राशि

(अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1)) कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अनुच्छेद-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टर/बंधककर्ता/के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ऋणियों/के कानूनी उत्तराधिकारी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति / सम्पत्तियों का साकृतिक कब्जा ले लिया है। ऋणी / ऋणियों / गारन्टर / के कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से य8ह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति / सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति / सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन **इण्डियन ओवरसीज** वैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। ''उधारकर्त्ता(ओं) / के कानूनी उत्तराधिकारी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया

बंधक समान्ति का विवरण

सं.	शाखा / ऋणा / बंघककता क नाम	बधक सम्पात्त का विवरण	की तिथि	वकाया सारा
1.	शाखाः शिवालिक नगर, हरिद्वार (2901)	बंधक विक्रय विलेख स्वामित्व वाला घर संपति जो प्लॉट	30.08.2024	₹0 20,20,021.00
	ऋणी: - श्रीमती सध्या पत्नी श्री संजीव मिश्रा और कु0 प्रिया मिश्रा पुत्री श्री संजीव मिश्रा, निवासी: प्लॉट नं0 15 पर घर, खसरा नं0 316, जो ग्राम	नं० 15 पर घर, खसरा नं० 316, जो ग्राम जमालपुर कलां, गायत्री मन्दिर के सामने, छोटी नहर के पास,	कब्जा तिथि	दिनांक 27.08.2024 तव + संविदात्मक दरों फ अतिरिक्त ब्याज, व्यय औ
	जमालपुर कलां, गायत्री मन्दिर के सामने, छोटी नहर के पास, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला	परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, सीमाएः पूर्व—प्लॉट नं0 14 से जुड़ा भाग	15.06.2024	अन्य शुल्क आदि दिनांव 30.08.2024 से
	हरिद्वार, उत्तराखण्ड।	25.00 फिट, पश्चिम— 20 फिट चौड़े रास्ते के साथ 25.00 35.00 फिट दक्षिण— अन्य व्यक्ति की भूमि के साथ लगा 35. स्वामित्व श्रीमती संघ्या और कु0 प्रिया मिश्रा।	फिट भाग , उत्तर -	
2.	शाखाः सराय, हरिद्वार (3212) ऋणी / बंधककर्ता :- श्री अहसान पुत्र श्री	आवासीय भवन का बचा हुआ हिस्सा जिसका प्लॉट नं0 16, खसरा नं0 242, जो ग्राम जमालपुर कलां, परगना	30.08.2024	रु0 10,64,279.80 दिनांक 28.08.2024
	सत्तार, निवास ः ग्राम व पो० ओ० सराय, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड— 249404	ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड —249404, कुल क्षेत्रफल 69.33 वर्ग मीटर, सीमाए पूर्व—पानी की निकासी पश्चिम— प्लॉट नं०	कब्जा तिथि	तक + संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज, व्यूय और अन्य
ĺ	16 का हिस्सा, उत्तर— चक रोड़, दक्षिण— श्री अहसान पुत्र श्री सत्तार।	16 फिटचौड़ी सड़क। बंधक अचल संपत्ति का स्वामित्व	18.06.2024	शुल्क आदि
3.	शाखाः विकासनगर, देहरादून (2502) ऋणी / बंधककर्ता :- मोहमद नईम खान पुत्र श्री	आवासीय संपत्ति जिसका खतौनी खाता नं0 166, खसरा नं0 263क मिन, क्षेत्रफल 231.60 वर्ग मीटर और 2492.00	30.08.2024	रु0 20,90,850.00 दिनांक 29.08.2024 तव
	समशाद अली खान, निवासी : ग्राम धर्मावाला, पो0	वर्ग फिट, जो मौजा धर्मावाला, परगना पछवादून, तहसील	कब्जा तिथि	+ संविदात्मक दरों प अतिरिक्त ब्याज, व्यय औ
	ओ0 धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड–248142,(कानूनी उत्तराधिकारी)	विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में स्थित है, सीमाएं: पूर्व–16 फीट चौड़ी सड़क (किनार की	21.05.2024	अन्य शुल्क आदि
	स्वर्गीय श्रीमती शाजिया खान पत्नी मोहम्मद नईम खान, निवासी ग्राम धर्मावाला, पो० ओ० धर्मावाला, विकासनगर, उत्तराखण्ड—248142	माप ४४ फीट), पश्चिम— विक्रेता की भूमि (माप ४५ फीट), उ दक्षिण— विक्रेता पक्ष की भूमि (माप ५६ फीट), बंधक अय और शाजिया खान।	उत्तर — 12 फीट च	
	दिनांकः 02.09.2024		प्राधिकृत अधिकारी	, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक



बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, डेवेंचर होटल के सामने नमस्ते चौक करनाल-132001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-मेलः recovery.karnal@bankofbaroda.com अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना। परिशिष्ट IV-A [नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों को देखें]

प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनः निर्माण और प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल

परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। सामान्य जनता को आम तौर पर और कर्जदारों, रेहनकर्ताओं व गारंटरों को विशेष तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूतित ऋणदाता को रेहन/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिनका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूतित ऋणदाता के

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उनकी बिक्री नीचे वर्णित खाते में देय वसुली के लिए **"जैसी है जहां है","जैसी है जो कुछ है" और "जो कुछ वहां मौजूद है"** के आधार पर की जाएगी। कर्जदारों/रेहनकर्ताओं/गारंटरों/प्रतिभृतित परिसंपत्तियों/देयताओं/आरक्षित मुल्य/ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि नीचे वर्णित हैं:-

क्र. सं.	शाखाका नान/	खाते के नाम व कर्जदार⁄ गारंटर⁄ रेहनकर्ताओं के पते	अचल संपत्ति का विवरण	कुल देयताएं	ई- नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि, बोली वृद्धिशील राशि	कब्जे की प्रकृति	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय
1.	शाखाः एसएमई कुंडली,	(उधारकर्ता) फिरदौस फातिमा पत्नी मोहम्मद हसन खान	गांव महरौली, तहसील हौज खास, नई दिल्ली- 110030 में	01.08.2024 तक	08.10.2024 समयः	रु. 15.70 लाख	भौतिक	01.10.2024
	मो: 8398000988,	एफ-201 जामिया हमदर्द कैंपस हमदर्द नगर नई दिल्ली	स्थित खसरा नं. 1151/3 में से वार्ड नं. 6, श्रीधर	₹. 17,63,765.90	अप. 2.00 बजे से	रु. 1.57 लाख	के बा	द पूर्व अनुमित के
- 1	३५८।.	दाक्षण दिल्ला दिल्ला, 1100621 (सह-आवदक) मा.	। अपाटमट, संपात्तं न. ८८४ (पुरानां न. ८८३–ए) पर निमित्त		जप. ७.०० बज तक	₹. 10,000/-	अधीन	समयः सुबह 11.00
	sssikun@bankofbaroda.com	हसन खान पुत्र मो. सज्जाद खान एफ-201 जामिया	फ्लैट नं. 303, तीसरी मंजिल की संपत्ति का सम्यक	+ अप्रयुक्त ब्याज	+ अनारक्षित ब्याज	त + कानूनी/अन्य शुल्क	बजे से	शाम 04.00 बजे तक
	हमदर्द कैंपस हमदर्द नगर नई दिल्ली द	क्षिणी दिल्ली दिल्ली, 110062। (गारंटर) रियास पुनाथिल	रेहन। संपत्ति का क्षेत्र 295 वर्ग यार्ड। निम्नानुसार सीमाब	द्धः सीमाबद्धः पूर्व मेंः प	म्लैट नं. 301, पश्चिम गं	नेंः फ्लैट नं. 304, उत्तर मेंः गल <u>ि</u>	यारा/प्रवेश द्वार फिर	फ्लैट नं. 311, दक्षिण

📕 पुत्र इस्माइल पुनाथिल 86/45ए, एसएफ, वार्ड नंबर 8, महरौली, नई दिल्ली 110030। में: नीचे गली। बिक्री की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm; और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://ebkray.in पर प्रदान किए गए लिंक को देखें। भावी बोलीदाता ऊपर तालिका में वर्णित संबंधित शाखाओं के प्राधिकृत कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

स्थानः करनाल प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Place: New Delhi Date: 02.09.2024

www.bseindia.com and www.nseindia.com in due course of time.

cs.rollatainers@gmail.com/investor@beetalfinancial.com

AARTI JAIN Chairperson DIN: 00143244

For ROLLATAINERS LIMITED Sd/-

दिनांक: 02.09.2024

www.readwhere.com

FINANCIAL EXPRESS

PERSONAL

Classifieds

I.Sanowar Prawin.w/o Md Wasim Akram.R/o H.No.419.Gali no.11.Near. Ek minar masjid, Lalita park,Laxmi Nagar,Delhi 110092, have change my name to Sanobar Praween, permanently.

0040747030-8

KESHAV S/o Dinesh R/o-N-166, Kishan Vihar Delhi-110086, declare that name of mine my father and my mother has been wrongly written as KESHAV KOLI, DINESH KOLI, and SUNI-TA KOLI in my 10th-class **Educational Documents the** actual name of mine my father and my mother are KESHAV, **DINESH and SUNITA.**

0040747043-9

I,Aaisha,W/o Samir Ahmed R/o B-532, Gali.No.13/9, Veer Abdul Hamid Marg, Subhash Vihar, North Ghonda, Delhi-110053. have changed my name to Ayesha permanently.

0040747030-10

I,Athemamul Haque,s/o Abdul Jabbar, R/o-D-109/4, Abul-Fazal Enclave-II, Shaheen Bagh, Jamia-Nagar, Delhi-110025, have changed my name to Ahtemamul Haque Permanently.

0040747052-9

I,Busaina Md Mugeem w/o Muhammad Yasir, R/o-220-A, Mughal-Compound, Tower-2,Flat-501,Nai Basti Abul Fazal-1, Jamia-Nagar, Delhi-110025, have changed my name to Busaina Mohd Moqeem Faizi Permanently.

0040747052-8

I,Jasmeen Kaur Kohli,D/o Jitender Pal Singh, R/o A-82, Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi-110095, have changed my name to Jasmeen Kaur permanently.

0040747030-9 I.MOHIT DIXIT,S/O ANIL

DIXIT,R/O,H.NO.A-154,ST.NO.04,OPP.WALIA-NURSING HOME, SHAKARPUR DELHI-110092, THAT MY COR-**RECT AND ACTUAL NAME** MOHIT DIXIT AS PER MY AAD-HAR-CARD. & PAN-CARD NO.CCKPD6396N.BUT MY NAME IS MENTIONED AS MOHIT KUMAR DIXIT MY EDU-**CATION CERTIFICATES** (10TH.,12TH.,AND GRADUA-TION) MOHIT DIXIT AND MOHIT KUMAR DIXIT IS THE SAME PERSON, MY FATHER NAME IS ANIL DIXIT AND ANIL KUMAR DIXIT IS THE SAME PERSON.

0040747056-8

I,SATANDAR SINGH,S/O ROSHAN SINGH,R/O G-2,GURUDWARA BALA SAHIB.NEAR BHAGWAN NAGAR, JUNGPURA, NEW DELHI-110014, HAVE CHANGED MY NAME TO SATENDER SINGH, FOR ALL PURPOSES.

0040747056-7

I,Narender Kumar S/O. Lekhu Ram R/O.296, First-Flower, Dr Mukherjee Nagar G.T.B.Nagar Delhi-110009, have changed my name to Narender Kumar Arora permanently.

0040747052-10

I.Mahaveer s/o Ramesh Kumar,R/o E-1/18,Om Vihar, Uttam Nagar, D.K Mohan Garden, Delhi-110059, have changed my name to Baljinder Kumar, Permanently.

0040747052-7

LOST & FOUND

I have changed my name from Km Bharati Devi, Ku Bharti Devi Brahman, Ku bharti Devi Brahaman, Kumari Bharti Devi Brahman to BHARATI DEVI D/o Balmukund Tiwari Address is Pali (Pan), Tahseel-Pali (Pan) District-Lalitpur (Uttar-pradesh) Pincode-284403 Mo.- 99104 26582 Email-bharatitiwari009@gmail.com

0040746962-1

PUBLIC NOTICE eneral Public is hereby informed that Sr arveen Sood alias Parveen Sud is the absolu-wner of Free-Hold Flat No. 397 on First Flo Pocket-C, SPS Cat-III, situated at Sarita Vit New Delhi (called, Said Property" hereinafte hat the Original Demand.cum Aliotment Lett ssued by the Delhi Development Authority avour of Sh. Arun Kumar Jain pertaining to the Said Property is missing/lest even photocop of the same is also not available with the own or which necessary information report respect of lost articles/documents has alread been lodged with Delhi Police Crime Brand Vide L.R. No. 2080/286/2024 dated 02:09:2024 The owner has represented that the sain reperty is free from all sorts of encumbran and has executed an Agreement to sell t selling of the said property to Sh. Alok Kum opta and Smt. Jyoti Varshney who littend t sate charge wz., mortgage or otherwise, he said property for a lnan/credit facility for Statu Bank of India, RACPC, South Extension Part-1, Delhi Branch Code 16683, Il an son(s), financial institution claiming a est, having any objection espect of the said property on the basis of foresaid lost documents or any other basis nay write/contact with above mentioned such as well as the undersigned on a mail-rohit/ka399@gmail.com within 07 day om the date of this publication of notic taking which any such claim etc. shall t deemed to be null and void and whereas tit shall be deemed to be clear, and marketab without any defect encumbrance and free to resite equitable mortgage.

Rohit Kumar (Advocate (Enrl. No.D/4443/2018 Chamber No.5, Ground Floor Rohini Court, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE My Clients Mr. Ranbir Singh S/o Mr. Chander Singh and Mrs. Saroj W/o Mr. Ranbir Singh, R/o H.No. RZ A-44, Dabari Extention East, Palam Village, South West Delhi-110045 hereby severe all relations and Debar their Son Mr. Kuldeep Singh Khasa & their Daughter in Law Mrs. Damni W/o Kuldeep Singh Khasa from their entire movable / immovable properties due to their hostile behaviour, disobedience and out of control nature. My clients or their family members shall not be responsible for any acts or deeds done by them whatsover. PURU ARORA (Advocate)

ELLORA TRADERS LIMITED

Corporate Identification Number: L27101UP1985PLC007436 Regd. Off. - 16/95, The Mail, Kanpur, Uttar Pradesh - 208 001 fel: +0512 2378314; E-mail: ellora.traders@rediffmail.com website: www.elloratraders.com

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the nembers of Ellora Traders Limited will be held on Thursday, 26th day of September, 2024 at the Registered Office of the Company at 16/95 The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208 001 at 11:00 A.M. to transact the business as set forth in the Notice of the meeting dated 12th August

The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means remote e-voting) on all resolution set forth in the Notice.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of

The remote e-voting period commences at 9:00 A.M on 23rd September 2024 and ends at 5:00 PM on 25th September, 2024. Remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time

A member voting rights shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on 19th September, 2024 A Person whose name is recorded in the register of member of the Company or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility

of remote e-voting as well as voting in AGM. The person who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as or cut-off date i.e. 19.09.2024, may obtain user ID and password for remote e-voting by sending request at ellora.traders@rediffmail.com. The facility for voting, either by polling / ballot paper shall also be made available at the AGM and members who have not already cast their voter by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote in AGM A member may participate in AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in AGM

The Notice of the Annual General Meeting, along with the procedure for e-voting, is displayed on the Company's website www.elloratraders.com and on the website of the agency, www.evoting.nsdl.com. For any queries / grievances related to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.

You may also contact to Ms. Bhawana, Company Secretary& Compliance officer, Ellora Traders Limited, 16/95, The Mall, Kanpur, U.P - 208001

E-mail: ellora.traders@rediffmail.com; Tel: 0512 2378314.

Notice in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, is hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, the 20th September, 2024 to Thursday, the 26th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 39th Annual General Meeting

of the Company to be held on Thursday, 26th September, 2024.

For Ellora Traders Limited Place : Kanpur Bhawana Dated: 02.09.2024 Company Secretary

By order of the Board of Directors

MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED Regd. Office: - 5th Floor, Sanchi Building, 77,

Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L74899DL1985PLC019749 **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mefcom Capital Markets Limited will be held on Monday, the 23rd September, 2024 at 4:30 P.M. at E-15, Ansal Villas, Satbari, New Delhi-110030 to transact the business as set out in the Notice

The company has completed the electronic dispatch of the notice of AGM on Saturday, 31st August, 2024 to the members of the company whose email is registered with the RTA, the same will be available on the website of the Company at https://www.mefcom.in/ and will also be available on the website of stock exchange i.e., BSE Limited at https://www.bseindia.com Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the companies (Management and Administrations) Rules, 2014 as amended from time to time and the provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the members are provided with the facility to cast their vote electronically, through remote E-voting services provide by NSDL on all special business set forth in the notice calling AGM. The Board of Directors has appointed BK Sharma & Associates, Practicing Company Secretaries as scrutinizer for conducting the remote E-voting services and voting at the AGM in fair and transparent manner. The voting rights of Members shall be in proportions to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the company as on Monday, 16th September, 2024. THE MEMBERS ARE HEREBY REQUESTED TO NOTE THAT:

The remote e-voting portal /facilities shall remain open from Friday, 20th September. 2024 at 9:00 A.M. and ends on Sunday, 22nd September, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting shall not be allowed beyond the prescribed date and time mentioned above.

A person, whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners

- maintained by the depositories /RTA as on cut-off date i.e., Monday, 16th September, 2024 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting and vote at the AGM. A person who ceases to be a member as on Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The member, who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting, may vote at the AGM.
- Any person who become the member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., Monday, 16th September, 2024 may obtain the User Id and Password by sending the request to evoting@nsdl.co.in, the detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the notice of

MANNER OF REGISTERING / UPDATING EMAIL ADDRESSES IS AS BELOW:

- For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/RTA email id.
- For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting. If you have any queries or issues regarding attending AGM & remote e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to Ms. Pallavi Mahatre at evoting@nsdl.co. in or contact on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

For Mefcom Capital Markets Limited

Place: New Delhi Vijay Mehta Date: 31.08.2024 Managing Director

PUBLIC NOTICE orntation is given to general public at large that m ent Mr. Rajeev Mendiratta Sio Late Mr. Chetan Dao

indiratta Rio H. No.7/6, 3rd Floor, Old Rajindo

agar, Central Delhi-110060; taking a Loan from HDR

Residential Third Floor with Roof right, area measurin (5.9 sq. yds., Property Bearing no 7/6. Situated at O

ginder Nager, Delhi-110060; said property is owner Partition: Deed dated: 01.04.2014 executed

etween Dhiraj Mendiratta And Rajeev Mendiratta duly gistered as Doc no. 2855, Vol. no. 15543, in Book

1, Page no. 86-94 , in S.R.III Delhi, hereinafte

med to as "the said property" submitted the Paper

garding this property with HDB Financial Services vt. Ltd. And. Original Conveyance Deed cated 3.10.1997 executed by POI Through L&DO in favour

Mrs. Lavrni Devi w/o Mr. Chetan Desa dul gistered as Occs no. 3052, vol no. 9685, page no. 71

I in the office of Sub-Registrar - III. Defn. This occurrent has been lost somewhere for that Mr.

lajeev Mendratta has Filed e-FIR vide LR. Complain lo. 2081:258/2024 on dt. 02.09.2024 at Deits Police

indivinetum it at the address mentioned below. Now

r client is declaring that any other Person does no

ave any right over the said property and if any person a having objection right of claim against the said

operly, confact to undersigned along with supporting southerts within DT days from the date of publication

this notice and or the same to the undersigned it

and by anyone. Thereafter no claim shall be

Address: G-721, Karkardooma Court, Deihi Phone: 8929635407, 9843394303, 01143045407

Sahil Virmani (Advocate)

My client Smt. Sunita Rani W/o Lt. Sh Roshan Lal R/O H.No. 1235, Mata Wal Gali, Near Krishan Mandir, Najafgarh South West Delhi-110043 disown his son Shyam Lal (Mastu), daughter-in-law Ms. Neha and their legal heirs from their all moveable and immovable properties and break-off all relations with them. My client shall not be responsible towards anyone for their acts/deeds

PUBLIC NOTICE

Garima Bhardwaj Chamber no. 718, Dwarka Court, New Delhi-110075

GARIMA4hX3 SSR(7)

PUBLIC NOTICE "Be it known that my clients Shri, Ramesh Chand Slo Shri, Jagdish Chander age about

53 years. Aadhar No 16968 8583 0439), R/o H. No-148, Gali No-7, Sainik Vihar, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-59., have discovered and debarred their son namely Shri. Deepak Chand and/along with his wife Smt. Naina from all their moveable and immoveable properties and have cancelled all their Relations with them in future as they are continuously harassing, torturing, abusing and quarreling with my clients and are completely out of their control. If anyone deals with them shall be doing at his/her own costs and risks and my clients shall not held any responsible of any of their acts and deeds. Advocate (Juber Ahmad) Ri129, Mohan Garden, New Delhi-59

PUBLIC NOTICE

ublic Notice is hereby given that the (1) Original Allotment Letter dated 28.02.2011 & (2) Original Property Amendment Letter dated 27.10.2017 both issued by Greater Noida Industria Development Authority in favour of Mr. Kamlesh in respect of Plot No. 13 situated at Pocket-C1, Sector/Village Pali in Greater Noida Distt. Gautam Budh Nagar (U.P) have been lost. Anybody finding the said documents must inform to following contact

SUNIL KUMAR TYAGI (ADVOCATE) R-14/178, Raj Nagar Ghaziabad-201002 Mobile 9891119142 Advertisement 0120-665 Call



Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266

Park, Plot A-1A & A1-B, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010.

Aditya Birla Housing Finance Limited Branch Office- Unit No. 201, 202 & 205 to 209, 2nd Floor, Urbanac Business

APPENDIX IV[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice(for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rul8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of mentioned below and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

1. Name of Borrower: RUDRA PRAKASH SINGH, SHIVANI SINGH, SHIVANI SINGH (IN THE CAPACITY OF AVAILABLE LEGAL HEIR OF LATE RENU SINGH)

Outstanding: Rs. 16,01,493/- (Rupees Sixteen Lakh One Thousand Four Hundred Ninety Three Only) Demand notice Dated: 24-06-2024 Date of Possession: 29.08.2024 **Description of the Immovable Property**

All That Piece And Parcel Of House Constructed On Plot No. 4, Admeasuring Area 92.936 Sq. Mtr. I.E. 1000 Sq. Feet, Khasra No. 78 Min. Situated At Village/Mohalla: Rasoolpur Kayasth, Pargana: Mahona, Tehsil: Bakshi Ka Talab, District: Lucknow, Utter Pradesh-226201, And Bounded As: East: Others Property West: Road 22 Feet Wide North: House, Plot No.03 (Seller) South: House, Plot No. 05 (Amit Chourasiva).

2. Name of Borrower: Q.M. Khan, Shahla Bano, Nikhat Shamim, ABC Traders, Faisal Mahmood Outstanding: Rs. 63,40,881.03/- (Rupees Sixty Three Lakh Forty Thousand Eight Hundred Eighty One and Three Paise Only)

Demand notice Dated: 18-06-2024 Date of Possession: 29.08.2024 **Description of the Immovable Property**

All That Piece And Parcel Of Residential House No. 529a/82/100-1277, With Land Admeasuring 1800 Sq. Fts. I.E., 167.286 Sq. Mts. Only Constructed On Plot No. 13, Constructed Area 117.565 Sq. Mtr., Being Portion Of Khasra No. 213, Situated At Pant Nagar, Sector-B, Khurram Nagar, Ward-Shankarpurwa, Lucknow, Uttar Pradesh-226022, And **Bounded As: East:** House Built Over Plot No. 12 Of Other Person West: Plot No. 14 (Smt. Shahla Bano & Others) North: House Of Other South: 20 Ft. Wide Road. Date: 29.08.2024

Aditya Birla Housing Finance Limited Place: Lucknow

KALYANI CAST TECH LIMITED (Formerly Known As; "Kalyani Cast Tech Private Limited")

CIN: U26990DL2012PLC242760 Reg. Office: B-144, 2nd Floor, DDA Shed, Okhla Industrial Area, Phase-1, Delhi-110020 Factory: Village Mamria Thethar, Distt. Rewari (Hr.) Tel: 011-26444400, Mobile: 09650891119,

NOTICE OF THE 12TH ANNUAL GENERAL MEETING

E-mail: info@kalyanicasttech.com, Kalyanicasttech@gmail.com

Authorised Officer

Notice is hereby given that the 12" Annual General Meeting of the Members of Kalyani Cast Tech Limited ("Company") will be held on Saturday, 28" September 2024 at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/other Audio-Visual Means ("OAVM"). In compliance with General circular no. 09/2023 dated September 25, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs & Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (referred to as "the Circulars"), the Companies are allowed to conduct the AGM through VC to transact the business set out in the Notice convening the AGM, without the physical presence of the member at a common venue In compliance with the circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM along with the

Annual Report-2023-2024, have been sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants. These documents are also available on the Company's website at www.kalyanicastlech.com, on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The dispatch of the Notice of AGM through emails has been sent completed on Monday, 02 September, 2024. Shareholders holding shares in the Company as on the Cut-off date i.e. as on Saturday,

September 21, 2024, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through the electronic Voting System of NSDL ("remote e-voting"). The voting right of the shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the

paid-up share capital of the Company. Shareholding participating through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). All the shareholders are informed that: Their assent or dissent through e-voting only. The company has availed the services of NSDL for facilitating e-voting to enable the shareholders to cast their votes

AGM Notice ("AGM Notice"). Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Sunday, September 22, 2024 to Saturday, 28

electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the 12th

The remote e-voting shall commence on Wednesday, 25° September, 2024 at 09:00 A.M. The remote e-voting shall end on Friday 27th September, 2024 at 05:00 P.M.

September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Company has appointed M/s Ankur Singh & Associates, Practicing Company Secretary, (ACS: 60761and CP No. 22820), New Delhi, to act as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process as well as for e-voting during the 12" AGM of the Company, in a fair and transparent manner. Shareholder may note that:-

Once the vote on a resolution cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change in subsequently: The Facility for voting will also be made available during the AGM, and those

- shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM; and The Shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Member who have not registered their email address(es) or acquired shares after dispatch of the notice and holding of shares as on cut off date can refer the notes to the AGM "The Instructions for members for remote e-voting and joining AGM" to attend the AGM and/to cast their vote through e-voting or e-voting during the AGM. viii. For permanent registration/updation the same with the relevant Depository Participants.
- In case of any queries/difficulties in registering the e-mail address, Member may write to cs@kalyanicasttech.com. On or before 28" September, 2024.
- In case of any queries relating to remote e-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Question (FAQ) and e-voting user manual in the 'Downloads' section of NSDL's website or call the toil-free no.; 022-48867000 or contact Pallavi Mhatre senior manager, Trade world, A Wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai-400013 or send and email to evoting@nsdl.com.
- The result of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared within two working days from conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer Report, shall be place on the Company website at www.kalyanicasttech.com immediately after their declaration and communicated to the Stock Exchange where the Company's shares are listed viz BSE and be made available on their website at For KALYANI CAST TECH LIMITED

Date: 02.09.2024 Place: New Delhi

Pankaj Kumar (Company Secretary) M. No. 68365



Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, PREET VIHAR: AD BRIDGE COMMU-Ph.: 9810029747 42421234. SHAKARPUR : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING,

WEST

Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, NEW MOTI NAGAR : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR** : UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE**: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP SHAGUN ADVERTISING, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI**: ADWIN

ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER): AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK): PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD**: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON**: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29) : RDX ADVERTISING Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148,

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES) FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com financialexp.epapr.in

TEAMO PRODUCTIONS HQ LIMITED

(Formerly known as GI Engineering Solutions Limited) CIN: L74110DL2006PLC413221

Regd. & Corporate Office: Unit 1308, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Palace, New Delhi-110034 | Tel No: 011-44789583 | Website: www.tphg.co.in | E-mail ID: cs@giesl.in Notice of 18th Annual General Meeting & Book Closure

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Teamo

Productions HQ Limited (formerly known as GI Engineering Solutions Limited) will be held on

Wednesday, September 25, 2024 at 12:00 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 18th AGM along with the Annual

Report for the Financial Year 2023-24 on Monday, September 02, 2024 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.tphq.co.in. Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing)

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from Thursday, September 19, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 18, 2024, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 18th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 18th AGM. In this regard, the members are hereby further notified that:

- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the general meeting is Wednesday, September 18, 2024. The remote E-voting period will commence from Sunday, September 22, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and
- will end on Tuesday, September 24, 2024 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the
- dispatch of notice may obtain the login ID and password from Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54 or send an e-mail to ivote@bigshareonline.com A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of
- remote E-voting as well as voting in the general meeting. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.
- The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM Notice. The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the AGM Notice.

If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

Date: September 02, 2024

Place: New Delhi

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

(Formerly known as GI Engineering Solutions Limited)

For Teamo Productions HQ Limited

Company Secretary & Compliance Officer

CIN: L11011UP1989PLC011004 Read. Office: Plot No. B-2/6 & 2/7, UPSIDC Industrial Area, Sandila Phase IV, Hardol UP Corporate Office: F-32/3, Ground Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email Id:- secretarial@shrigangindustries.com; Website- www.shrigangindustries.com; Contact No: 011-42524454/011-42524499

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited will be held on Wednesday, September 25, 2024 at 1:00 P.M. through Video Conferencing ('VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the MCA General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 in relation to *Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)*, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/

The Notice of AGM along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, September 2, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also available on Company's website (www.shrigangindustries.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com)

PoD-2/ P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated

October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The remote e-voting period will commence at 10.00 A.M. Sunday, September 22, 2024 upto 5.00 P.M.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

on Tuesday, September 24, 2024. During this period, Members may cast their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Tuesday, September 24, 2024. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in

facility available during the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided

the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 18, 2024 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or e-voting at the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the electronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cutoff date, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

Members who are holding shares in physical form or have not registered their e-mail address with the Company/Depositories can obtain login credentials for e-voting as per the following procedure:

- For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number, e-mail address to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back), selfattested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by e-mail to the RTA at beetairta@gmail.com.
- 2. For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s.

f you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542.

The results of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and the website of CDSL The Company has been allotted ISIN (INE241V01018) for dematerialization of the company's shares.

All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

By order of the Board of Directors of M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited

Kanishka Jain

(Company Secretary)

Place: New Delhi Date: 02.09.2024

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

New Delhi